



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112024-258971
CG-DL-E-28112024-258971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4696]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2024/ अग्रहायण 6, 1946

No. 4696]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024/ AGRAHAYANA 6, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

का.आ. 5086(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5195(अ) तारीख 07/12/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 719डी (6 लेन आगरा - ग्वालियर ग्रीन फील्ड हाइवे) के कि.मी. 67.820 से कि.मी. 88.200 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुरैना, जिला-मुरैना) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन / 6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15.12.2023" को "नई दुनिया " और "फ्री प्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को

अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 719डी (6 लेन आगरा - ग्वालियर ग्रीन फील्ड हाइवे) के कि.मी. 67.820 से कि.मी. 88.200 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुरैना, जिला-मुरैना) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: मुरैना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बामौर					
गांव का नाम: खिरावली					
1	550	अन्य	सिंचित/ असिंचित	0.0141	रामकुमार पुत्र भीखाराम 550/2
2	574	निजी	सिंचित	0.018	रामकुमार पुत्र भीखाराम 574
3	575	निजी	सिंचित	0.203	रामकुमार पुत्र भीखाराम 575
4	579	अन्य	सिंचित/ असिंचित	0.0191	रामकुमार पुत्र भीखाराम 579/2
5	614	निजी	सिंचित	0.033	मंदिर श्री राधा कृष्ण जी, पुजारी श्री प्रेमदास गुरु स्व.गोकुल प्रसाद, प्रबन्धक मंदिर श्री श्यामदास गुरु स्व. श्री गोकुल दास पितागुरु गोकुल प्रसाद 614

6	633	निजी	सिंचित	0.094	मंदिर श्री राधा कृष्ण जी, पुजारी श्री प्रेमदास गुरु स्व. गोकुल प्रसाद, प्रबन्धक मंदिर श्री श्यामदास गुरु स्व. श्री गोकुल दास पितागुरु गोकुल प्रसाद 633
Total				0.3812	

[फा. सं. NHAI/PIU-GWL/Agra-Gwl-Section/2023-24/001/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2024

S.O. 5086(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5195(E) Dated:07/12/2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/6 laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 719D (6 lane Agra-Gwalior Greenfield Highway) in the stretch of land from Km. 67.820 to Km. 88.200 (Office of the Sub-Divisional Officer Revenue Morena) in the district of MORENA in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Nai Dunia” and “Free Press” both dated 15.12.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 719D (6 lane Agra-Gwalior Greenfield Highway) in the stretch of land from Km. 67.820 to Km. 88.200 (Office of the Sub-Divisional Officer Revenue Morena) in the district of MORENA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: MORENA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bamor					
Village: Khirawali					
1	550	Common	Irrigated/ Unirrigated	0.0141	Ramkumar S/o Bheekharam 550/2
2	574	Private	Irrigated	0.018	Ramkumar S/o Bheekharam 574
3	575	Private	Irrigated	0.203	Ramkumar S/o Bheekharam 575
4	579	Common	Irrigated/ Unirrigated	0.0191	Ramkumar S/o Bheekharam 579/2
5	614	Private	Irrigated	0.033	Temple Shri Radha Krishna Ji, Pujari Shri Premdas Guru Late Gokul Prasad, Manager Temple Shri Shyamdas Guru Late. Shri Gokul Das S/o Guru Gokul Prasad 614
6	633	Private	Irrigated	0.094	Temple Shri Radha Krishna Ji, Pujari Shri Premdas Guru Late Gokul Prasad, Manager Temple Shri Shyamdas Guru Late. Shri Gokul Das S/o Guru Gokul Prasad 633
Total				0.3812	

[F. No. NHA/PIU-GWL/Agra-Gwl-Section/2023-24/001/3D]
ABHAY JAIN, Director